

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनी रत्न कंपनी
(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)
जन समर्पक विभाग
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद - 826005 (झारखण्ड)
दूरभाष/फैक्स : 0326-2230202
वेबसाईट: www.bccl.gov.in
ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com
सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED

'A Mini Ratna Company'
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Public Relation Department
Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad- 826005 (Jharkhand).
Phone/Fax: 0326-2230202
website: www.bccl.gov.in
email: bcclprodhanbad@gmail.com
CIN : U10101JH1972GOI000918

दिनांक -18.06.2018

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 18.06.2018 को उप महानिदेशक (डी0जी0एम0एस) श्री के एन राव की अध्यक्षता में कोयला भवन के सभागार में कम्पनी स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक में बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री अजय कुमार सिंह ने कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिये, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का दुर्घटना नहीं चाहता है। उन्होंने सभी खदानों में लाईटिंग की समुचित व्यवस्था पर विशेष दिशानिर्देश दिये, साथ ही जुलाई 2018 को लाईटिंग माह घोषित किया, जिसके अंतरगत सभी खदानों का लाईटिंग व्यवस्था की जांच टीम बना कर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमे अपने कामगारों के जीवन स्तर को उँचा करने के बारे में सोचना चाहिये तथा सुरक्षा चौपाल में contractors workers को भी शामिल करना चाहिए। उप महानिदेशक (डी0जी0एम0एस) श्री के एन राव ने खदानों में लाईटिंग की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु दिशानिर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीएमआर 2017 के अनुसार सेफ्टी मैनेजमेन्ट प्लान तैयार कर उस पर विशेष चर्चा होना चाहिए तथा यह भी निर्देश दिया कि एस0ओ0पी0 तैयार कर इसे लागू किया जाए एवं सभी के संयुक्त प्रयास से ही सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ओ0सी0पी0 में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश की रोकथाम हेतु सख्त कदम उठाए जायें। भी0टी0सी0 की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हेतु जरूरी तथा सार्थक प्रयास करने का भी निर्देश दिया।

उपरोक्त कार्यक्रम में निदेशक (वित्त) श्री के. एस. राजशेखर, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री देवल गंगोपाध्याय, निदेशक (कार्मिक) श्री आर एस महापात्रा, ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन लोगों ने अपना विचार रखते हुए कहा कि उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयों को निचले स्तर पर लागू करने से ही बेहतर सुरक्षा हासिल होगी, हमें नीतिगत निर्णय लेकर इन्हें लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यावधि में डी0जी0एम0एस, सेफ्टी बोर्ड सदस्यों द्वारा मिले सहयोग की चर्चा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि कंपनी को भविष्य में भी वैसा ही सहयोग मिलेगा जिस तरह अब तक मिला है।

डी0जी0एम0एस0 की तरफ से निदेशक (विद्युत) श्री अजय सिंह ने सलाह दिया कि कम्पनी में विद्युत से संबंधित तार, कण्डक्टर, इंसुलेटर इत्यादि उच्च क्वालिटी के खरीदे जाएँ ताकि विद्युत उपकरणों की अर्थिंग सुनिश्चित करने से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

डी0जी0एम0एस0 की तरफ से निदेशक (खनन) श्री छिदरवार ने कहा कि सीएमआर 2017 के अनुसार सभी खदानों में तीन माह के अन्दर सेफ्टी मैनेजमेन्ट प्लान का समीक्षा कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदपूर क्षेत्र में rescue trained persons की कमी को दूर किया जाए।

सुरक्षा समिति सदस्यों ने ओ0सी0पी0 में प्रदूषण,ब्लास्टिंग सुरक्षा एवं पर्यावरण को सबसे बड़ी समस्या बताया एवं ओवरमैन, माईनिंग सरदार, सर्वेयर तथा विद्युत पर्यवेक्षक की कमी पर चर्चा की । उपरोक्त कार्यक्रम में डी0जी0एम0एस0 के विभिन्न अधिकारी शामिल थे और उन्होने अपना महत्वपूर्ण विचार रखा । कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बीसीसीएल के महाप्रबन्धक (समन्वय) ए के दत्ता , महाप्रबन्धक बी सी नायक एवं बीसीसीएल के सभी क्षेत्र के महाप्रबन्धक तथा कोयला भवन के सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे । उपरोक्त कार्यक्रम का संचलन महाप्रबन्धक प्रभारी (सुरक्षा एवं बचाव) श्री सुबोध प्रसाद ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री एस मित्तर् ने किया ।

महाप्रबन्धक(जन सम्पर्क)

